

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2010—कार्तिक 14, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं